



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 917 राँची, बुधवार

26 सितम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

24 सितम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-68/2016- (HRMS)/ 2390-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर वित्तीय अनियमितता, मनरेगा योजना अभिलेखों का संधारण नियमानुसार नहीं करने, मनरेगा योजनाओं का अभिलेख आदि जाँच दलो को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं करने, आदेश की अवहेलना करने, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-324/वि०, दिनांक 13 जून, 2016 एवं ज्ञापांक-487/म०, दिनांक 25 जून, 2016 द्वारा संलग्न प्रपत्र-क एवं पूरक- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री मिश्रा के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मिश्रा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री मिश्रा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJEEV KUMAR MISHRA JHK/JAS/198	श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ सम्प्रति-कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद्, दुमका के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
